

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक - 20.06.2022

महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद किये जाने के आह्वान के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस टीम रही सतर्क-युवाओं को किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने, भ्रामक तथ्यों से बचने व

शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतू की गई अपील-

अग्निपथ योजना को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद किये जाने के आह्वान के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेत् आज दिनांक 20.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों द्वारा भारी पुलिस बल के साथ 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ अपने-अपने सर्किल व थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर रेलवे स्टेशनों, रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी प्रतिष्ठान व अन्य स्थानों पर पैदल मार्च कर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं एवं आमजनमानस के साथ संवाद कर अग्निपथ स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विरोध प्रदर्शन व उपद्रव से दूर रहकर जनपद की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था को सुदृढ एवं सुरक्षित बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई, साथ ही अन्य युवाओं व आम लोगों को अग्निपथ स्कीम के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के हेतु प्रेरित किया गया, युवाओं को अग्निवीर सेना भर्ती नई योजना के संबंध में भर्ती होने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसके उपरान्त युवाओं में "अग्निवीर" बनने की उत्सुकता देखी गई, साथ ही जनपदीय पुलिस टीम द्वारा युवाओं को आश्वस्त कराया गया कि महोबा पुलिस व प्रशासन जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है।

















प्रेस विज्ञप्ति दिनांक - 20.06.2022

महोबा प्रतिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने वांरण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में आपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी तथा बरामदगी के तहत थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री उमापति मिश्रा द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

जिसमें उ.नि. श्याम देव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दो नफर वारंटी/NBW अभियुक्तों 1.विशाल पुत्र दरयाव यादव 2. मालती पत्नी विशाल नि.गण सबुआ थाना चरखारी महोबा सम्बन्धित केस न. 35/2014 धारा 323/504 भा0द0वि0 के वारण्टी को तहसील गेट चरखारी से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में हे.का.प्रमोद कुमार सिंह व हे.का.जयपाल सिंह के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने एक नफर वारंटी/NBW अभियुक्त उमाशंकर पुत्र नवल किशोर नि.गहरौली थाना मुस्करा जिला हमीरपुर संबंधित केस न. 37/04 धारा 279/337/338/ 504/506 भा0द0वि0 न्यायालय महोबा को पेश दरवाजा वारंटी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को सम्बन्धित मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

- 1. उ.नि. श्याम देव सिंह मय 2. का.अरुण कुमार यादव 3. म.का.कोमल विश्वकर्मा
- 2. 4. हे.का.प्रमोद कुमार सिंह 5. हे.का.जयपाल सिंह









प्रेस विज्ञप्ति दिनांक - 20.06.2022



मीडिया सेल, महोबा





